

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 14, 1972/चैत्र 25, 1893

No. 203]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 14, 1972/CHAITRA 25, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 12th April 1972

S.O. 289(E):—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
I.	Indian News Review No. 1222 (Northern Edition).	268.52M	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road,		Film dealing with news and current events. (For release in Northern States, viz., Har-yana, J & K., Madhya

1	2	3	4	5	6
					Pradesh, Punjab, Rajasthan, U. P., Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli Admn., Delhi, Administration, Himachal and Pondicherry).

[No. F. 28/1/72-FP App.1655]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1972

एस० नो० 289 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० नो० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1222 (उत्तरी संस्करण)	268.52 मीटर	फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	भारत	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल उत्तरी प्रदेशों) हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल और निकोबार टापू, दादरा और नागर हवेली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, पॉण्डिचेरी और हिमाचल प्रदेश।

[संख्या फ० 28/1/72-एफ पी परिशिष्ट 1655]

S. O. 290(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1221 (Western Edition)	257.25M	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events (For release in Western States, i.e. Gujarat, Maharashtra and Goa Daman and Diu).

[No. F. 28/1/72-F(P) App. 1656]

एस० ओ० 290 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792; तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1221 (पश्चिमी संस्करण)	257.25 मीटर	फिल्मज प्रभाग, सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	भारत	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात, महाराष्ट्र तथा गवा, दमन और देशों में प्रदर्शित करने के लिये)

[संख्या फ० 28/1/72-एफ पी परिशिष्ट 1656]

S.O. 291(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1220 (Southern Edition)	281.94M	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay -26.		Films dealing with news and current events. (For release in Southern States i.e. Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu).

[No. F. 28/1/72-FP App. 1657]

एस० ओ० 291 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1220 (दक्षिणी संस्करण)	281.94 मीटर	फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिणी प्रान्तों) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिल नाडू में प्रदर्शित करने के लिये)

[संख्या फ० 28/1/72-एफ पी परिशिष्ट 1657]

S. O. 392(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1220	219.76M	Films Division, Government of India, 24-Pedder Road, Bombay-26.		Films dealing with news and current events
2	Indian News Review No. 1221	188.67M	Do.		Do.
3	Indian News Review No. 1222	227.38M	Do.		Do.
4	Anywhere Anytime	302.00M	Do.		Documentary film.
5	Sapna	275.00M	Shri S.R. Saaz, 4/5, Kazi Block, 291-S. V. Road, Bandra, Bombay-50.		Documentary film.
	Priyadarshni	154.00M	Shri T.R. Malhotra, Bombay		Do.

[No. F. 28/1/72-F (P) App. 1658]

K. K. KHAN, Under Secy.

एस० ओ० 292(अ).—भारत सरकार के सचिव और प्रारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनी के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिनका विवरण उनके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1220	219.76 मीटर	फिल्मज प्रभाग, सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26।	भारत	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1221	188.67 मीटर	फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।	
(3)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1222	227.38 मीटर	—तथैव—		(व—
(4)	एनीव्हेयर एनी- थिंग	302.00 मीटर	—तथैव—		डाकुमेंट्री फिल्म
(5)	सपना	275.00 मीटर	श्री एस० आर० साज, 4/5, काजी ब्लाक, 291-एस० बी० रोड, बन्ना, बम्बई-50	—तथैव—	
(6)	प्रिय दर्शनी	154.00 मीटर	श्री टी० आर० मल्होत्रा, बम्बई।		डाकुमेंट्री फिल्म

[संख्या फ० 28/1/72-एफ पी परिशिष्ट 1658]

क० क० खान, अवर सचिव।